



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2340]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, नवम्बर 11, 2010/कार्तिक 20, 1932

No. 2340]

NEW DELHI, THURSDAY, NOVEMBER 11, 2010/KARTIKA 20, 1932

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 11 नवम्बर, 2010

का.आ. 2768(अ).—केन्द्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उप-धारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 1015(अ), तारीख 5 मई, 2010, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उप-खण्ड (ii) में प्रकाशित की गई थी, द्वारा मध्य प्रदेश राज्य के बैतुल जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 69(क) के मुलताई से बैतुल/छिन्दवाड़ा जिला सीमा सेक्शन तक के भूखण्ड के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन का बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंध और प्रचालन के लिए उस अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की थी;

और उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 3क की उप-धारा (3) के अधीन तारीख 10 अगस्त, 2010 को “नई दुनिया” और “दैनिक भास्कर” दोनों में प्रकाशित किया गया था;

और, आक्षेप प्राप्त हुए थे और सक्षम प्राधिकारी ने उन पर विचार कर लिया है और आक्षेपों को अननुज्ञात कर दिया है;

और, सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उप-धारा (1) के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी की उक्त रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर और उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जन किया जाना चाहिए;

और, अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उप-धारा (2) के अनुसरण में यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन पर, उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर आत्यन्तिक रूप से केन्द्रीय सरकार में निहित हो जाएगी।

अनुसूची

मध्य प्रदेश राज्य के बैतुल जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 69(क) के मुलताई से बैतुल/छिन्दवाड़ा जिला सीमा खंड तक अधिग्रहित की जाने वाली संरचना सहित अथवा संरचना रहित भूमि का संक्षिप्त विवरण

क्रम संख्या	जिले का नाम	तहसील का नाम	गांव का नाम	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	क्षेत्रफल (हे० में)	हितबद्ध व्यक्तियों के नाम
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	बैतुल	मुलताई	(1) घाटपिपरिया	387/3	निजी	असिंचित	0.097	दसरू पिता भागमल मेहरा
				388/2	निजी	असिंचित	0.200	डोमा पिता कमल मेहरा
				290	शासकीय	बड़े झाड़ का जंगल	0.332	म०प्र० शासन
			(2) कपास्या	331	निजी	असिंचित	0.200	सुलकी विधवा छोटेलाल, सोनी विधवा रमेश, लल्लू, राजेश ना०बा० पिता रमेश, ललिता ना०बा० पिता रमेश, बली मां सोनी, भूता पिता छोटेलाल, शिवदयाल पिता गजमल, काली, दमड़ी पिता गजमल
				332	शासकीय	चरनोई	0.113	म०प्र० शासन
				333/1	निजी	असिंचित	0.180	इनक पिता फुस्या पवार
				333/2	निजी	असिंचित	0.160	शिवदयाल पिता धुन्धू पवार
				333/3	निजी	असिंचित	0.160	वंशी पिता धुन्धू पवार
				333/4	निजी	असिंचित	0.057	शिवदयाल पिता धुन्धू पवार
				333/5	निजी	असिंचित	0.097	इनक पिता फुस्या पवार
				341	निजी	सिंचित	0.080	रामरतिया, मीरा वेवा भूरा, कलसिया पिता बुद्ध, कचरू पिता मगरया, मीरा, शांता, सुशीला पिता मगरया नाई
				347	निजी	असिंचित	0.089	नल्लु पिता मनीराम, फगनी पिता मनीराम, गुड्डी, मुन्नी पिता चुन्नी पवार

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				366	निजी	असिंचित	0.105	गिरधारी, गणपति पिता लाला, ग्यारसी विधवा नत्थु, लता, मंजी ना0बा0 पिता नत्थू, बली मां ग्यारसी, जयना पिता लाला, बत्तो विधवा श्यामराव, कचरया पिता श्यामराव, फुंदन पिता श्यामराव पवार
				367	निजी	असिंचित	0.004	गिरधारी, गणपति पिता लाला, ग्यारसी विधवा नत्थु, लता, मंजी ना0बा0 पिता नत्थू, बली मां ग्यारसी, जयना पिता लाला, बत्तो विधवा श्यामराव, कचरया पिता श्यामराव, फुंदन पिता श्यामराव पवार
				375/1	निजी	असिंचित	0.275	कारू, हेमराज, गुलाबू पिता पन्ना, दमडी विधवा रामचंद, दशरथ, अशोक पिता दयाराम, इन्द्रा पिता दयाराम बढई
				375/2	निजी	असिंचित	0.243	दशरथ, अशोक पिता दयाराम बढई
				375/3	निजी	असिंचित	0.320	कारू, हेमराज, गुलाबू पिता पन्ना, दमडी विधवा रामचंद, दशरथ, अशोक पिता दयाराम, इन्द्रा पिता दयाराम बढई
				376/2	निजी	असिंचित	0.081	अन्तु पिता रादू पवार
				334	शासकीय	चरनोई	0.142	म0प्र0 शासन
				346	शासकीय	चरनोई	0.073	म0प्र0 शासन
				368	निजी	असिंचित	0.065	ओझी, बापूजी पिता तुली पवार
				374	शासकीय	चरनोई	0.085	म0प्र0 शासन
				377	शासकीय	चरनोई	0.160	म0प्र0 शासन
				386	शासकीय	पानी	0.097	म0प्र0 शासन

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			(3) डहुआ	483	शासकीय	पानी	0.049	म०प्र० शासन
				484	निजी	असिंचित	1.100	मल्कू पिता दौलत, विनोदी पिता सालकराम, किशो पिता मेंहगू, लता पिता भिकारी, मीरा बेवा भिकारी, टन्टी, अमरुत, रमेश पिता धन्जी, सगन, चम्पा पिता धन्जी, पैकी बेवा धन्जी
				485	निजी	असिंचित	0.160	कैलाश, महेश पिता सरावन, गीता, लता पिता सरावन, पार्वती बेवा सरावन, कैलाश पिता गुलबू पवार
				443	शासकीय	नाला	0.008	म०प्र० शासन
			(4) दुनावा	84	निजी	असिंचित	0.057	फूलवती पति गनेश तेली
				87/1	निजी	सिंचित	0.160	हेमराज, परसराम पिता गणपत कलार
				276/2	निजी	असिंचित	0.049	शकुन्तला विधवा बिसन, घनश्याम, कालू, दशरथ पिता बिसन, लता विधवा मुन्नालाल, गोपाल, कुमकुम ना०बा० पिता मुन्नालाल बली मां लता तेली
				277	निजी	असिंचित	0.700	मंदिर श्री रामचन्द्रजी प्रबंधक कलेक्टर महो० बैतूल सरवराकार परसराम, हेमराज पिता गणपत कलार
				278	शासकीय	रास्ता	0.081	म०प्र० शासन
				279	निजी	असिंचित	0.036	शकुन्तला विधवा बिसन, घनश्याम, कालू, दशरथ पिता बिसन, लता विधवा मुन्नालाल, गोपाल, कुमकुम ना०बा० पिता मुन्नालाल बली मां लता तेली
			(5) बुकाखेडी	29/1	निजी	असिंचित	0.045	देवाजी पिता तुकाराम

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				29/2	निजी	असिंचित	0.045	भीमराव, रामा पिता मौजी, फुंदा पिता मौजी, प्रवीण, नीलेश पिता डोमा, सेजा विधवा मौजी, रेखा विधवा डोमा
				30	निजी	असिंचित	0.486	शेषराव पिता मिटू
				32	निजी	असिंचित	0.125	महादेव पिता शिवजी, जानकी, मैना, जैना, रायजी पिता शिवजी, देवाजी पिता जिवत्या, सोनी, मोल्ही पिता जिवत्या, इटोल पिता पारन्या, आशा, उषा पिता पारन्या कुनबी
			(6) खैरवानी	226	शासकीय	घास	0.100	म0प्र0 शासन
				227	शासकीय	आबादी	0.008	म0प्र0 शासन
				228	निजी	असिंचित	0.100	गुना पिता बोंदर, कचरा पिता सोमर पवार
				434	निजी	सिंचित	0.130	गुना पिता बोंदर, कचरा पिता सोमर पवार
				433	निजी	सिंचित	0.030	शिवपाल, नंदराम पिता झिंगरू, जानकी पिता झिंगरू, बिरजी विधवा झिंगरू
				432/1	निजी	सिंचित	0.060	हरी पिता मौजी पवार
				432/2	निजी	असिंचित	0.010	शंकर पिता बीरबल पवार
				214	निजी	असिंचित	0.040	हरीहर, अमृतराव पिता बाजी, कारो, पंजू, गुलाबराव, धनजी पिता मड़सी, ओझा पिता कन्नु, सुमित्र विधवा कन्नु, भरतू, गेंदी पिता मड़सी पवार
				215	निजी	असिंचित	0.040	किसनोबा पिता महपत पवार
				206/5	निजी	असिंचित	0.010	ईठी विधवा महपत, मैना, कमल पिता महपत पवार
				206/4	निजी	असिंचित	0.060	धुंधू पिता विनोदी पवार
				206/3	निजी	सिंचित	0.070	कारु पिता शंकर पवार
				223	शासकीय	पानी	0.016	म0प्र0 शासन

438/50/10-2

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			(7) सोनेगांव	40	निजी	सिंचित	0.049	लुथिया, अनुराज, पिता तिलकचंद, रामरंजन, महादेवसिंह पिता झुम्मकसिंह, रघुनाथ, रामनाथ पिता बाजीलाल, छोटी पिता तिलकचंद रघुवंशी
				42	निजी	सिंचित	0.020	राजकुमार पिता रतनलाल रघुवंशी
				43	निजी	सिंचित	0.049	राजकुमार, कन्हैयालाल पिता रतनलाल रघुवंशी
				109/19	निजी	सिंचित	0.016	राजकुमार, कन्हैयालाल पिता रतनलाल रघुवंशी
				110	निजी	सिंचित	0.142	जतनोबाई पति विनोदीलाल रघुवंशी
				112	निजी	सिंचित	0.073	राजकुमार, कन्हैयालाल पिता रतनलाल रघुवंशी
				121/1	निजी	असिंचित	0.012	देवलसिंह पति गोंडू, प्यारी पिता देवलसिंह रघुवंशी
				113	शासकीय	रास्ता	0.056	मध्य प्रदेश शासन
			(8) कामथ	156	निजी	सिंचित	0.061	मोहन पिता रघू
					योग		7.668	

[फा. सं. भाराप्र/पीआईयू/सीएचडब्लू/एलए/2010]

एस. एस. गुलिया, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 11th November, 2010

S.O. 2768(E).—Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways, number S.O. 1015(E), dated the 5th May, 2010, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) and issued under sub-section (1) of section 3A of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government declared its intention to acquire the land specified in the Schedule annexed to the said notification for building (widening/four-laning, etc.), maintenance, management and operation of National Highway on the stretch of land from Multai to Betul/Chhindwara District Border Section of NH-69(A) in District Betul, in the State of Madhya Pradesh;

And whereas the substance of the said notification has been published in "Nai Duniya" and "Dainik Bhaskar", both dated the 10 August, 2010; under sub-section (3) of section 3A of the said Act;

And whereas objections have been received and the same have been considered and disallowed by the competent authority;

And whereas, in pursuance of sub-section (1) of section 3D of the said Act, the competent authority has submitted its report to the Central Government;

Now, therefore, upon receipt of the said report of the competent authority and in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that the land specified in the said Schedule should be acquired for the aforesaid purpose;

And further, in pursuance of sub-section (2) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that on publication of this notification in the Official Gazette, the land specified in the said Schedule shall vest absolutely in the Central Government, free from all encumbrances.

SCHEDULE

Brief description of the land to be acquired, with or without structure, falling within the stretch of land from Multai to Betul / Chhindwara District Border Section of National Highways No. 69(A) in District Betul in the State of Madhya Pradesh

Serial number	Name of the district	Name of the taluk	Name of the village	Survey number	Type of land	Nature of land	Area (in hectares)	Name of person interested
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Betul	Multai	(1) Ghat Piparia	387/3	Private	Non-irrigated	0.097	Dasru S/o Bhagmal Mehra
				388/2	Private	Non-irrigated	0.200	Doma S/o Kamal Mehra
				290	Govt.	Bade Jhad Ka Jangal	0.332	M.P.Govt.
			(2) Kapasya	331	Private	Non-irrigated	0.200	Sulki Widow Chhotelal, Soni Widow Ramesh, Lallu, Rajesh Minor S/o Ramesh, Lalita Minor D/o Ramesh, Bali Mother Soni, Bhuta S/o Chhotelal, Shivdayal S/o Gajmal, Kali, Damdi S/o Gajmal
				332	Govt.	Charnoi	0.113	M.P.Govt.
				333/1	Private	Non-irrigated	0.180	Jhanak S/o Phusya Pawar
				333/2	Private	Non-irrigated	0.160	Shivdayal S/o Dhundu Pawar
				333/3	Private	Non-irrigated	0.160	Banshi S/o Dhundu Pawar
				333/4	Private	Non-irrigated	0.057	Shivdayal S/o Dhundu Pawar
				333/5	Private	Non-irrigated	0.097	Jhanak S/o Phusya Pawar
				341	Private	Irrigated	0.080	Ramratiya, Meera Widow Bhura, Kalasiya D/o Budhu, Kachru S/o Magrya, Meera, Shanta, Sushila D/o Magrya Nai
				347	Private	Non-irrigated	0.089	Nathu S/o Maniram, Fagni D/o Maniram, Guddi, Munni D/o Chunni Pawar
				366	Private	Non-irrigated	0.105	Girdhari, Ganpati S/o Lala, Gyarasi Widow Nathu, Lata, Manji Minor D/o Nathu, Bali Mother Gyarasi, Jayna D/o Lala, Batto Widow Shyamrao, Kacharya S/o Shyamrao, Fundan S/o Shyamrao Pawar

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				367	Private	Non-irrigated	0.004	Girdhari, Ganpati S/o Lala, Gyarasi Widow Nathu, Lata, Manji Minor D/o Nathu, Bali Mother Gyarasi, Jayna D/o Lala, Batto Widow Shyamrao, Kacharya S/o Shyamrao, Fundan S/o Shyamrao Pawar
				375/1	Private	Non-irrigated	0.275	Karu, Hemraj, Gulabu S/o Panna, Damdi Widow Ramchand, Dashrath, Ashok S/o Dayaram, Indra D/o Dayaram Badhai
				375/2	Private	Non-irrigated	0.243	Dashrath, Ashok S/o Dayaram Badhai
				375/3	Private	Non-irrigated	0.320	Karu, Hemraj, Gulabu S/o Panna, Damdi Widow Ramchand, Dashrath, Ashok S/o Dayaram, Indra D/o Dayaram Badhai
				376/2	Private	Non-irrigated	0.081	Antu S/o Rathu Pawar
				334	Govt.	Charnoi	0.142	M.P. Govt.
				346	Govt.	Charnoi	0.073	M.P. Govt.
				368	Private	Non-irrigated	0.065	Ojhhi, Bapuji S/o Tuli Pawar
				374	Govt.	Charnoi	0.085	M.P. Govt.
				377	Govt.	Charnoi	0.160	M.P. Govt.
				386	Govt.	Water	0.097	M.P. Govt.
			(3) Dahuaa	483	Govt.	Water	0.049	M.P. Govt.
				484	Private	Non-irrigated	1.100	Maliku S/o Daulat, Vinodi S/o Salakram, Kisho S/o Mehgu, Lata D/o Bhikari, Meera Widow Bhikari, Tanti, Amarut, Ramesh S/o Dhanji, Sagan, Champa D/o Dhanji, Paiki Widow Dhanji
				485	Private	Non-irrigated	0.160	Kailash, Mahesh S/o Saravan, Geeta, Lata D/o Saravan, Parvati Widow Saravan, Kailash S/o Gulbu Pawar
				443	Govt.	Nala	0.008	M.P. Govt.
			(4) Dunawa	84	Private	Non-irrigated	0.057	Phoolwati W/o Ganesh Teli
				87/1	Private	Irrigated	0.160	Hemraj, Parasram S/o Ganpat Kalar

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				276/2	Private	Non-irrigated	0.049	Shakuntala Widow Bisan, Ghanshyam, Kalu, Dashrath S/o Bisan, Lata Widow Munnalal, Gopal, Kumkum Minor S/o Munnalal Bali Mother Lata Teli
				277	Private	Non-irrigated	0.700	Mandir Shri Ramchandraj Manager, Collector, Betul Convenor Parasram, Hemraj S/o Ganpat Kalar
				278	Govt.	Rasta	0.081	M.P. Govt.
				279	Private	Non-irrigated	0.036	Shakuntala Widow Bisan, Ghanshyam, Kalu, Dashrath S/o Visan, Lata Widcw Munnalal, Gopal, Kumkum Minor S/o Munnalal Bali Mother Lata Teli
			(5) Bukakhedi	29/1	Private	Non-irrigated	0.045	Devaji S/o Tukaram
				29/2	Private	Non-irrigated	0.045	Bheemrao, Rama S/o Mouji, Funda S/o Mouji, Praveen, Neelesh S/o Doma, Seja Widow Mouji, Rekha Widow Doma
				30	Private	Non-irrigated	0.486	Sheshrao S/o Mitthu
				32	Private	Non-irrigated	0.125	Mahadeo S/o Shivji, Janki, Maina, Jaina, Rajji D/o Shivji, Devaji S/o Jivatya, Soni, Molhi S/o Jivatya, Itthol S/o Parnya, Asha, Usha D/o Parnya Kunbi
			(6) Kherwani	226	Govt.	Ghas	0.100	M.P. Govt.
				227	Govt.	Abadi	0.008	M.P. Govt.
				228	Private	Non-irrigated	0.100	Guna S/o Bondar, Kachara S/o Somar Pawar
				434	Private	Irrigated	0.130	Guna S/o Bondar, Kachara S/o Somar Pawar
				433	Private	Irrigated	0.030	Shivpal, Nandram S/o Jhingru, Janki D/o Jhingru, Birji Widow Jhingru
				432/1	Private	Irrigated	0.060	Hari S/o Moji Pawar
				432/2	Private	Non-irrigated	0.010	Shankar S/o Birbal Pawar

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				214	Private	Non-irrigated	0.040	Harihar, Amritrao S/o Baji, Karo, Panju, Gulabrao, Dhanji S/o Madsai, Ojha S/o Kannu, Sumitra Widow Kannu, Bhartu, Gendi S/o Madsai Pawar
				215	Private	Non-irrigated	0.040	Kisnoba S/o Mahpat Pawar
				206/5	Private	Non-irrigated	0.010	Ithi Widow Mahpat, Maina D/o Mahpat, Kamal S/o Mahpat Pawar
				206/4	Private	Non-irrigated	0.060	Dhundhu S/o Vinodi Pawar
				206/3	Private	Irrigated	0.070	Karu S/o Shankar Pawar
				223	Govt.	Water	0.016	M.P. Govt.
			(7) Sonegaon	40	Private	Irrigated	0.049	Luthiya, Anuraj S/o Tilakchand, Ramranjan, Mahadeosingh S/o Jhummaksingh, Raghunath, Ramnath S/o Bajilal, Chhoti D/o Tilakchand Raghuvanshi
				42	Private	Irrigated	0.020	Rajkumar S/o Ratanlal Raghuvanshi
				43	Private	Irrigated	0.049	Rajkumar, Kanhaiyalal S/o Ratanlal Raghuvanshi
				109/19	Private	Irrigated	0.016	Rajkumar, Kanhaiyalal S/o Ratanlal Raghuvanshi
				110	Private	Irrigated	0.142	Jatnobai W/o Vinodilal Raghuvanshi
				112	Private	Irrigated	0.073	Rajkumar, Kanhaiyalal S/o Ratanlal Raghuvanshi
				121/1	Private	Non-irrigated	0.012	Devalsingh S/o Gondu, Pyari W/o Devalsingh Raghuvanshi
				113	Govt.	Rasta	0.056	M.P. Govt.
			(8) Kamath	156	Private	Irrigated	0.061	Mohan S/o Ragghu
				Total			7.668	

[F. No. NHAI/PIU/CHW/LA/2010]

S. S. GULIA, Director